

Get insights

from wherever you are

The ALL-NEW Business Standard App Making Devices Smart, Insight Out.

Our all-new app brings a new level of ease in accessing what matters to you the most, from wherever you are. Your favourite columns, stock market updates, editorials, analysis and more! It's the same insightful business journalism you expect from us, with rich and intuitive features to enhance your reading experience.



**The Business Standard
Morning Show**
New episodes at 8am,
Monday to Friday



Daily market insights
Get detailed analysis
and updates
on the share market



Go offline
Online. Offline. Anytime.
Stay connected, always



Dark mode
Introducing dark mode for
easy reading



Read to me
Listen on the move



Quick reads
For when you don't have time



Business Standard Insight Out

SANGAM (INDIA) LIMITED
CIN: L17109DL2005PLC136029 | Regd. Off: Plot, Changan Road, Bhowani 511001 (Raj.)
Ph: +91 1482 264001 Fax: +91 1482 264002 Email: investor@sangamindia.com Website: www.sangamindia.com

Notice to Shareholders
Transfer of Equity Shares of the Company to Investor Education and Protection Fund (IEPF)

Shareholders are hereby informed that, pursuant to the provisions of the Companies Act, 2013 and the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2015, as amended, the dividend declared on the equity shares for the Financial Year 2014-15, which remained unclaimed for a period of seven years will be credited to the Investor Education and Protection Fund (IEPF). The corresponding shares on which dividend were unclaimed for seven consecutive years will also be transferred as per the procedure set out in the Rules. In compliance with the said Rules, the Company has sent individual notices to all the concerned members whose shares are liable to be transferred to IEPF, the full details of such members are made available on the Company's website at www.sangamindia.com.

In this connection, please note the following:

1) In case you hold shares in physical form: Duplicate share certificate(s) will be issued and transferred to IEPF. The original share certificate(s) registered in your name(s) and held by you, will stand automatically cancelled.

2) In case you hold shares in electronic form: Your demat account will be debited for the shares liable for transfer to the IEPF.

Further, any member whose name is appearing in the above-mentioned list shall send a request letter along with self attested copy of KYC documents of the shareholder like PAN, cancelled cheque leaf along with latest utility bill as address proof for claiming the dividend on or before 28th November, 2022 and avoid transfer of your shares to the IEPF Authority. In case no valid claim in respect of equity shares is received from the members of the Company by 28th November, 2022 or such other date as may be extended, the Company shall, with a view to complying with the requirements set out in the said Rules, transfer the shares to the IEPF by the due date as per the stipulated procedure. Please note that no claim shall lie against the Company in respect of the unclaimed dividend amount and equity shares transferred to the IEPF. However, any person whose shares and unpaid dividend is transferred to the IEPF may claim the shares and dividend from the Investor Education and Protection Fund Authority (IEPF) Authority as per the procedures prescribed under the Rules. For any queries on the above matter, shareholders are requested to contact the Company's Registrar and Share Transfer Agents, at "Bhigane Services Pvt. Ltd. (Unit: Sangam India) (Ld.) (ITA)" at Office No. S2, 8th floor Pinnacle Business Park, Next to Ahura Centre, Mahakali Caves Road, Andheri (East) Mumbai-400053, Maharashtra, India. Tel: 022-62636200 Email: investor@bhiganeindia.com

For Sangam India Limited
Sd/-
(A.K.Jain),
Company Secretary

Place: Bhiwara
Date: August 27, 2022

APPENDIX IV
(See rule 8 (1))
POSSESSION NOTICE
(for immovable property)

Whereas,
The undersigned being the Authorized Officer of the **INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED (CIN:L65922DL2005PLC136029)** under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13 (12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued Demand Notice dated **23.05.2022** calling upon the Borrowers **VINOD SHARMA AND NEELAM SHARMA** to repay the amount mentioned in the Notice being **Rs.20,39,153.10 (Rupees Twenty Lakhs Thirty Nine Thousand One Hundred Fifty Three and Paise Ten only)** against Loan Account No. **HHLN0000269763** as on **18.05.2022** and interest thereon within 60 days from the date of receipt of the said Notice.

The Borrower having failed to repay the amount, Notice is hereby given to the Borrower and the public in general that the undersigned has taken **symbolic possession** of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under Sub-Section (4) of Section 13 of the Act read with Rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on **23.08.2022**.

The Borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the **INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED** for an amount of **Rs.20,39,153.10 (Rupees Twenty Lakhs Thirty Nine Thousand One Hundred Fifty Three and Paise Ten only)** as on **18.05.2022** and interest thereon.

The Borrower's attention is invited to provisions of Sub-Section (8) of Section 13 of the Act in respect of time available, to redeem the secured assets.

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY

THIRD FLOOR WITH ROOF RIGHTS OF BUILT UP PROPERTY BEARING NO. NO.K-50, ADMEASURING 75.50, YARDS I.E. 62.71 SQ. METRS. (SIZE 22.85 X 30.1) OUT OF KHASRA NO. 5 RECTANGLE NO. 91 (91/5), SITUATED IN THE REVENUE ESTATE OF VILLAGE HASTALS DELHI AREA/ABADI KNOWN AS K-BLOCK UTTAM NAGAR WITH PROPORTIONATE RIGHTS OF USE OF THE LAND UNDERNEATH WITH COMMON STAIR CASE PASSAGES ENTRANCE SUBMERGIBLE CONNECTION WITH SEPARATE WATER AND ELECTRIC CONNECTION (SOUTHERN PORTION), BLOCK K-50 BAL UDHYAN ROAD, UTTAMNAGAR, NEW DELHI-110059.

BOUNDED BY:
EAST : GALI 15' WIDE WEST : PLOT NO. K 51
NORTH : PORTION OF PLOT SOUTH : GALI 15' WIDE

Date : **23.08.2022** Authorised Officer
Place: NEW DELHI **INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED**

APPENDIX IV
(See rule 8 (1))
POSSESSION NOTICE
(for immovable property)

Whereas,
The undersigned being the Authorized Officer of the **INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED (CIN:L65922DL2005PLC136029)** under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13 (12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued Demand Notice dated **27.05.2022** calling upon the Borrowers **PARMINDER KAUR AND UPKAR SINGH** to repay the amount mentioned in the Notice being **Rs. 15,48,222.86 (Rupees Fifteen Lakhs Forty Eight Thousand Two Hundred Twenty Two and Paise Eighty Six Only)** against Loan Account No. **HHLRHN00408749** as on **23.05.2022** and interest thereon within 60 days from the date of receipt of the said Notice.

The Borrower having failed to repay the amount, Notice is hereby given to the Borrower and the public in general that the undersigned has taken **symbolic possession** of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under Sub-Section (4) of Section 13 of the Act read with Rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on **23.08.2022**.

The Borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the **INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED** for an amount of **Rs. 15,48,222.86 (Rupees Fifteen Lakhs Forty Eight Thousand Two Hundred Twenty Two and Paise Eighty Six Only)** as on **23.05.2022** and interest thereon.

The Borrower's attention is invited to provisions of Sub-Section (8) of Section 13 of the Act in respect of time available, to redeem the secured assets.

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY

FIRST FLOOR WITHOUT ROOF/TERRACE RIGHTS TOWARDS RIGHT HAND PORTION FROM FRONT VIEW, EASTERN PORTION OF BUILT UP PROPERTY BEARING PLOT NUMBER 8 ADMEASURING 50 SQUARE YARDS I.E. 41.81 SQUARE METER APPROX OUT OF KHASRA NUMBER 18/22 SITUATED IN THE REVENUE ESTATE OF VILLAGE MATAJA, AREA/ABADI KNOWN AS COLONY NANHEY PARK IN BLOCK-C, UTTAM NAGAR, DELHI-110059 WITH PROPORTIONATE RIGHTS OF THE LAND UNDERNEATH ALONG WITH COMMON ONE TWO WHEELER PARKING SPACE AT THE GROUND FLOOR AND THE PLOT IS BOUNDED AS FOLLOWS:-

EAST : PLOT NUMBER 9 WEST : ENTRY/LHS FLAT/PLOT NUMBER 7
NORTH : O/P PROPERTY SOUTH : ROAD 20 FEET WIDE

Date : **23.08.2022** Authorised Officer
Place: DELHI **INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED**